

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263639
SG-DL-E-06062025-263639असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 172]
No. 172]दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947
DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 86
[N. C. T. D. No. 86भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार एवं कर विभाग
(नीति एवं अनुसंधान शाखा)
अधिसूचना
दिल्ली, 5 जून, 2025
(संख्या 03/2025-राज्य कर)

फा.सं. 2 (558)/नीति/जीसटी/2025/333.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की अनुशंसाओं पर, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 63 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 के लिए गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्रपत्र जीएसटीआर-5 में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को दिनांक 15 जनवरी, 2025 तक विस्तारित करते हैं।

चंचल यादव, आयुक्त (राज्य कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**(Policy and Research Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 5th June, 2025

(No. 03/2025-State Tax)

F. No. 2(558)/policy/GST/2025/333.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in FORM GSTR-5, under sub-section (5) of section 39 of the said Act read with rule 63 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 15th day of January, 2025.

CHANCHAL YADAV, Commissioner (State Tax)